



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 15]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2012/पौष 27, 1933

No. 15]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2012/PAUSA 27, 1933

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2012

**सा का नि 27(अ)**—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि नियम, 2006 को मशोधित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक सा का नि 699(अ), तारीख 18 अगस्त, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (1), तारीख 24 अगस्त, 2011 द्वारा कतिपय प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे जिसमें उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन व्यक्तियों में, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे,

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना अतिरिक्त थी, जिसमें प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, जन साधारण को तारीख 24 अगस्त, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और इस संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि (मशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि नियम, 2006 में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखी जाएंगे, अर्थात्—

“7. स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निधि में अभिदाय—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय निधि में धन की ऐसी गति का अभिदाय करेगी जो स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझी जाए”।

[फा सं 28012/03/05-06-नरेगा]

डी. के. जैन, सयुक्त सचिव

## MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2012

**G.S.R. 27(E).**—Whereas certain draft rules to amend the National Rural Employment Guarantee Fund Rules, 2006, were published in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 31 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number G S R 639(E) dated 18th August, 2011 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 24th August, 2011 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette,

And whereas copies of the Gazette containing the said notification in which the draft rules were published were made available to the public on 24th August, 2011,

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of Section 31 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely —

- 1 (1) These rules may be called the National Rural Employment Guarantee Fund (Amendment) Rules, 2011
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
- 2 In the National Rural Employment Guarantee Fund Rules, 2006, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

**“7. Contribution to National Fund for implementation of Schemes.**—The Central Government shall contribute to the National Fund such sum of money as considered necessary for the implementation of the Schemes ”

[F.No.V-28012/03/05-06-NREGA]

Sd/- K. JAHN, JE Secy